

अभ्यास प्रश्नपत्र 1 (2020-21)

इतिहास (027)


कक्षा-XII

समय: 3 घंटा

अधिकतम अंक: 80

सामान्य निर्देश:

- 1) सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिये। कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित किए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में छह खंड हैं।
- 2) **खंड क** (प्रश्न संख्या 1 से 16) वस्तुनिष्ठ प्रश्न(1)अंक वाले हैं इनके उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिये। किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दीजिये।
- 3) **खंड ख** (प्रश्न संख्या 17 से 19) स्रोत आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंको का है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उप-भाग हैं जिनमें से किसी तीन उप- भागों के उत्तर दीजिये।
- 4) **खंड ग** (प्रश्न संख्या 20 से 23) में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिये।
- 5) **खंड घ** (प्रश्न संख्या 24 से 26) में प्रत्येक प्रश्न 8 अंको का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 350 शब्दों में दीजिये।
6. **खंड ङ** (प्रश्न संख्या 27 से 29) स्रोत आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंको का है।
7. **खंड च** (प्रश्न संख्या 30) मानचित्र संबंधी है, जिसमें लक्षणों को पहचानना तथा महत्वपूर्ण मदों को दर्शाना शामिल है। मानचित्र को उत्तर-पुस्तिकाके साथ नत्थी कीजिए।

	खंड क	1x15=15
	किन्ही 15 प्रश्नों के उत्तर दीजिए	
1	प्राचीन भारतीय व्यापार का इतिहास सही रूप से ----- काल से प्रारंभ होता है। a) वैदिक b) हड़प्पा c) बौद्ध काल d) मौर्य	1
2	संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ?	1
3	निम्नलिखित कथन को ठीक करके पुनः लिखें: जैन धर्म के अनुसार ,कर्म के चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए तप और मध्य मार्ग की आवश्यकता होती है।	1
4	धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्ण व्यवस्था को सही क्रम में लिखिए- a) शूद्र b) ब्राह्मण c) वैश्य d) क्षत्रिय	1
5	नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइये की धर्मचक्र किसका प्रतीक है? 	1
	केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 5 के	

	<p>स्थान पर:</p> <p>बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश का प्रतीक है:</p> <p>a) शालभंजिका</p> <p>b) धर्मचक्र</p> <p>c) स्तूप</p> <p>d) पेड़</p>	
6	प्राचीन भारत के धर्मशास्त्रों में विवाह के आठ प्रकारों में से किस प्रकार के विवाह को सर्वोत्तम आदर्श विवाह माना गया है?	1
7	<p>16 वीं शताब्दी के भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत थे:</p> <p>I. सच्ची श्रद्धा</p> <p>II. ईश्वर के समक्ष समानता</p> <p>III. मानव जाति के प्रति प्रेम</p> <p>IV. कर्मकांड</p> <p>सही उत्तर है:</p> <p>a) I, II, III</p> <p>b) I, II, IV</p> <p>c) II, III, IV</p> <p>d) I, III, IV</p>	1
8	पद्मावत के लेखक कौन थे ?	1
9	<p>विजय नगर साम्राज्य के समुद्री व्यापार के विषय में निम्नलिखित में से सही वक्तव्य का चयन कीजिए:</p> <p>a) समुद्री व्यापार की अवहेलना की जाती थी ।</p> <p>b) समुद्री व्यापार को हतोत्साहित किया जाता था ।</p> <p>c) समुद्री व्यापार को शाही प्रोत्साहन दिया जाता था ।</p> <p>d) समुद्री व्यापार को कुछ चुने हुए व्यापारियों की देखरेख में रखा गया था ।</p>	1
10	<p>निम्न युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए</p> <p>a) अमर नायक : सैनिक कमांडर</p> <p>b) हीरिया : जलाशय</p> <p>c) कमलपुरम : नहर</p> <p>d) मंडप : शासक</p> <p>e) कृष्ण देव राय : मंदिर परिसर</p>	1
11	अकबर के द्वारा उठाए गए किसी एक महत्वपूर्ण कदम का उल्लेख कीजिए जिसके आधार पर उसके शासन को धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है?	1
12	बेनामी से क्या अभिप्राय है?	1
13	मुगल सम्राट अपनी प्रजा के कौन से चार सत्वों की रक्षा करता था?	1

14	<p>नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से से एक को कथन (A) के रूप में और दूसरे को कारण (R) के रूप में दर्शाया गया है</p> <p>कथन (A) - ग्रामीण बंगाल में जोतदार की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी।</p> <p>कारण (R) - जोतदार जमींदारों के राजस्व भुगतान में जानबूझ कर देरी करा देते थे।</p> <p>a) केवल कथन(A) सही है।</p> <p>b) केवल कारण(R) सही है।</p> <p>c) कथन(A) और कारण(R) दोनों सही है पर कारण(R) कथन(A) का स्पष्टीकरण नहीं है।</p> <p>d) कथन(A) और कारण(R) दोनों सही है और कारण(R) कथन(A) का स्पष्टीकरण है।</p>	1
15	महात्मा गांधी ने कौन सा अखबार निकाला था?	1
16	रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किसने बनाया था ?	1
	खंड ख	
17	दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्न में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए -:	1+1+1
<p>प्रभावती गुप्त और दंगुन गाँव</p> <p>प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में यह कहा है:</p> <p>प्रभावती ग्राम कुटुंबिनों (गाँव के गृहस्थ और कृषक), ब्राहमणों, और दंगुन गाँव के अन्य वासियों को आदेश देती है ...</p> <p>“आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनालस्वामी को दान किया गया है। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए।</p> <p>एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। इस गाँव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गाँव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त है। साथ ही वे मंदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त हैं। इस गाँव को खनिज-पदार्थ और खदिर वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। फूल और दूध देने से भी छूट है। इस गाँव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े-छोटे सभी करों सहित किया गया है।” इस राज्यादेश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया है और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया है।</p>		
	<p>1) यह अभिलेख उत्कीर्णित किया गया था:</p> <p>a) चक्रदास द्वारा</p> <p>b) आचार्य चनालस्वामी द्वारा</p> <p>c) प्रभावती गुप्त द्वारा</p> <p>d) सैनिकों द्वारा</p>	

	<p>2) प्रभावती गुप्त भूमि दान करना चाहती थी, क्योंकि:</p> <ol style="list-style-type: none"> राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए धार्मिक प्रतिष्ठा पाने के लिए जनता को नियंत्रित करने के लिए उपरोक्त सभी <p>3) अग्रहार का अर्थ है:</p> <ol style="list-style-type: none"> वह भूभाग जो एक ब्राह्मण को दान में दिया गया हो। एक सभा स्थल वह क्षेत्र जो सैनिकों को दिए जाते थे उपर्युक्त में से कोई नहीं <p>4) एक अग्रहार के लिए सत्य कथन है :</p> <ol style="list-style-type: none"> इनमें सैनिक तथा पुलिस प्रवेश नहीं करेंगे। बड़े तथा छोटे सभी करों से यह गाँव मुक्त होगा। (a) और (b) दोनों सत्य है। केवल (a) सत्य है। 	
--	--	--

<p>18</p>	<p>महानवमी डिब्बा नामक चित्र को ध्यान से देखिए और किन्ही तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए:</p>  <p>सही विकल्प चुनकर लिखिए ।</p> <ol style="list-style-type: none"> महानवमी डिब्बा का आधारीय माप था:120 वर्ग फुट 1100वर्ग फुट 11000 वर्ग फुट 1200वर्ग फुट 	<p>1+1+1=3</p>
-----------	---	----------------

1) महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान हैं:

- a) दशहरा
- b) दुर्गा पूजा
- c) नवरात्रि
- d) उपरोक्त सभी

2) महानवमी डिब्बा पर होने वाले अनुष्ठानों के संदर्भ में असत्य कथन है:

- a) शासक द्वारा अपने रुतबे, ताकत और अधिकार का प्रदर्शन
- b) यह केवल मनोरंजन के लिए थे।
- c) नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट लाते थे
- d) उपर्युक्त सभी

3) महानवमी डिब्बा की आधारीय संरचना जिस पदार्थ की बनी हुई थी, वह है:

- a) पत्थर
- b) कच्ची मिट्टी
- c) लकड़ी
- d) लोहा

केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 18 के स्थान पर: दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्न में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए -:

पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में अनेक महिला और पुरुष गुलाम होते थे। वे साधारण से साधारण कार्य से लेकर कौशल, निपुणता तथा बुद्धिमत्ता के अलग-अलग कार्यों का संपादन करते थे। गुलाम हिजड़े (ख्वाजासर) परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर और व्यापार में दिलचस्पी लेने वाली महिलाओं के एजेंट होते थे।

नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। शाहजहाँ की पुत्रियों, जहाँआरा और रोशनआरा, को ऊँचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी। इसके अतिरिक्त जहाँआरा को सूरत के बन्दरगाह नगर जो कि विदेशी व्यापार का एक लाभप्रद केंद्र था,

से राजस्व प्राप्त होता था।

संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों व बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया। जहाँआरा ने शाहजहाँ की नई राजधानी शाहजहाँनाबाद (दिल्ली) की कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। इनमें से आँगन व बाग के साथ एक दोमंजिली भव्य कारवाँसराय थी। शाहजहाँनाबाद के हृदय स्थल चाँदनी चौक की रूपरेखा जहाँआरा द्वारा बनाई गई थी।

1) "मुगल साम्राज्य शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान बहुत समृद्ध था।" निम्न में से वह कथन जो इस वक्तव्य को ठीक सिद्ध करता है, वह है:

- नूरजहाँ का वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण होना शुरू हुआ।
- जहाँआरा और रोशनारा की वार्षिक आय बहुत अधिक थी।
- रोशनारा ने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा एक कारवाँसराय के निर्माण में खर्च किया।
- रोशनआरा ने विदेशी व्यापार से भारी लाभ कमाया।

2) मुगल रानी और राजकुमारियाँ हरम तक सीमित होने के बावजूद आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम थी क्योंकि:

- पुरुष दासों ने आर्थिक गतिविधियों में उनकी मदद की।
- गुलाम हिजड़ों ने उनके लिए एजेंट के रूप में काम किया।
- इन गतिविधियों में उनकी मदद करने के लिए मनसबदारों की नियुक्ति की गई थी
- महिला दासों ने आर्थिक गतिविधियों में उनकी मदद की।

3) "जहाँआरा बेगम ने महिलाओं से जुड़ी सभी रुढ़ियों की अवहेलना की।" निम्न में से वह वक्तव्य जो इस कथन को उचित ठहराता है, वह है:

- उसने मुगल घराने के पूरे कार्यभार की ज़िम्मेदारी ली।
- उसने घरेलू षडयंत्रों में भाग लिया।

	<p>c) उसने शाहजहाँनाबाद में कई वास्तुकला परियोजनाओं में हिस्सा लिया।</p> <p>d) उसने महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण नहीं रखा।</p> <p>4) जहाँआरा ने व्यापार के विकास में निम्न कदम/कदमों द्वारा योगदान दिया:</p> <p>i) सूरत के बंदरगाह शहर का निर्माण करके।</p> <p>ii) आगरा में अपनी राजधानी बनाने में शाहजहाँ की मदद करके।</p> <p>iii) दिल्ली में एक दोमंज़िली कारवाँसराय का निर्माण करके।</p> <p>iv) चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार करके।</p> <p>सही विकल्प चुनें:</p> <p>a) केवल (i)</p> <p>b) केवल (i) और (ii)</p> <p>c) केवल (iii) और (iv)</p> <p>d) केवल (iii)</p>	
--	---	--

19	दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्न में से किन्ही तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए -:	1+1+1=3
----	---	---------

विद्रोही ग्रामीण

ग्रामीण अवध क्षेत्र से रिपोर्ट भेजने वाले एक अफसर ने लिखा :
 अवध के लोग उत्तर से जोड़ने वाली संचार लाइन पर ज़ोर बना रहे हैं...। अवध के लोग गाँव वाले हैं...। ये गाँव वाले यूरोपियों की पकड़ से बिल्कुल बाहर है। पल में बिखर जाते है, पल में फिर जुट जाते है। शासकीय अधिकारियों का कहना है कि इन गाँव वालों वालों की संख्या बहुत बड़ी है और उनके पास बाकायदा बंदूकें है।

	<p>1) ब्रिटिश सरकार द्वारा अवध का अधिग्रहण जिस नीति के अंतर्गत किया गया था, वह है:</p> <p>a) सहायक संधि</p> <p>b) कुशासन का आरोप लगाकर</p> <p>c) आक्रमण की नीति</p> <p>d) इनमें से कोई भी नहीं</p> <p>2) नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से से एक को</p>	
--	---	--

	<p>कथन (A) के रूप में और दूसरे को कारण (R) के रूप में दर्शाया गया है</p> <p>कथन(A)- अवध में भावनात्मक उथल-पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से बल मिला।</p> <p>कारण (R)- नवाब के हटाए जाने से दरबार तथा उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नर्तकों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों, और बहुत से लोगों की रोजी रोटी जाती रही।</p> <p>a) केवल कथन(A) सही है। b) केवल कारण(R) सही है। c) कथन(A) और कारण(R) दोनों सही है पर कारण(R) कथन(A) का स्पष्टीकरण नहीं है। d) कथन(A) और कारण(R) दोनों सही है और कारण(R) कथन(A) का स्पष्टीकरण देता है।</p> <p>3) औपचारिक रूप से अवध को औपनिवेशिक सरकार का अंग घोषित किया गया था:</p> <p>a) 1853 ईस्वी में b) 1854 ईस्वी में c) 1855 ईस्वी में d) 1856 ईस्वी में</p> <p>4) अंग्रेजों को ग्रामीण अवध में विद्रोह को दबाने में सबसे अधिक समय लगा क्योंकि:</p> <p>a) वे पल में बिखर और पल में जुट जाते हैं। b) उनके पास बाकायदा बंदूकें थीं c) (a) और (b) दोनों सही है। d) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं।</p>	
	खंड ग	
20	ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी का काल विश्व इतिहास एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। कथन की न्यायसंगत विवेचना कीजिए।	3
21	“मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसके राजधानी नगर थे” सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।	3
22	सूर्यास्त विधि क्या थी? जमींदार राजस्व के भुगतान में क्यों चूक जाते थे?	1+2=3

23	असहयोग आंदोलन क्या था? विभिन्न सामाजिक वर्गों ने आंदोलन में किन विभिन्न तरीकों से भाग लिया?	1+2=3
खंड घ		
24	हड़प्पा संस्कृति में सत्ता तथा शासक वर्ग के अस्तित्व के संबंध में दिए जाने वाले तर्कों की युक्तियुक्त विवेचना कीजिए। अथवा 'पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएँ संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं।'	8
25	संत कबीर के विचारों और शिक्षाओं का भारतीय समाज, आर्थिक जीवन, सभी धर्मों तथा भाषा पर पड़े प्रभाव की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। अथवा इस्लाम भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कैसे बना? इस्लाम को मानने वाले नए शासकों ने अपनी प्रजा के साथ तालमेल कैसे बिठाया?	8 4+4
26	"अफवाह तभी फैलती है जब लोगों के जहन में गहरे दबे डर तथा संदेह की अनुगूँज सुनाई देती है।" 1857 के विद्रोह के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। अथवा 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है? इतिहासकार इन चित्रों का विश्लेषण किस प्रकार करते हैं?	8 4+4
खंड ड		
27	दिए गए उद्धरण को ध्यानपूर्वक पढ़िये व दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:	1+2+2
<p style="text-align: center;">द्रौपदी के प्रश्न</p> <p>ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया।</p> <p>प्रथम तो यह कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है।</p> <p>दूसरा यह कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष (जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे) किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता।</p> <p>इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी।</p> <p>27.1 द्रौपदी के प्रश्न ने सभा में सभी को बेचैन क्यों कर दिया?</p> <p>27.2 द्रौपदी के प्रश्न का क्या प्रभाव पड़ा?</p>		

27.3 द्रौपदी के प्रश्न को प्रशंसनीय क्यों माना जाता है?

28	निम्नलिखित उद्धरण को सावधानीपूर्वक पढ़िए वह उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए:	1+2+2
----	---	-------

वनों की कटाई व स्थाई कृषि के बारे में

निचली राजमहल की पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए बुकानन ने लिखा:
 इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है; यहां की खेती विशेष रूप से घुमावदार संकरी घाटियों में धान की फसल, बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन ,और चट्टानी पहाड़ियां, सभी अपने आप में पूर्ण हैं ,कमी है तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की और विस्तृत तथा उन्नत खेती की ,जिनके लिए यह प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है ।यहां लकड़ी की जगह टसर और लाख के लिए आवश्यकतानुसार बड़े-बड़े बागान लगाए जा सकते हैं ;बाकी जंगल को भी साफ किया जा सकता है और जो भाग इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त ना हो वहां पर पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं।

28.1 बुकानन कौन था?

28.2 भारतीय गांव के बारे में बुकानन के विचारों का उल्लेख कीजिए।

28.3 बुकानन द्वारा भूमि निरीक्षण करने से अंग्रेजों के किन स्वार्थों की पूर्ति हुई?

29	निम्नलिखित उद्धरण को सावधानीपूर्वक पढ़िए वह उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए:	1+2+2
----	---	-------

राजा और व्यापारी

विजय नगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्ण देव राय (शासनकाल 1509 से-1529) ने शासन कला के विषय में अमुक्तमल्यद नामक तेलुगू भाषा की एक कृति लिखी ।व्यापारियों के विषय में उसने लिखा:

एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारणा चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि, घोड़ों,हाथियों,रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके...उसे प्रबंध करना चाहिए कि उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफानों, बीमारी या थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ता है, की भली-भांति देखभाल की जा सके.. सुदूर देशों के व्यापारियों, जो हाथियों और अच्छे घोड़ों का आयात करते हैं, को रोज बैठक में बुलाकर, तोहफे देकर तथा उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ संबद्ध करना चाहिए। ऐसा करने पर ये वस्तुएँ कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुँचेंगी।

29.1 विजय नगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था?

29.2 कृष्ण देव राय द्वारा उल्लेखित राजा के उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए।

29.3 राजा द्वारा अपने देश की परिस्थितियों को सुधारने के लिए किए गए उपायों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

	खंड च (मानचित्र प्रश्न)	
30	<p>(30.1) भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित स्थलों को अंकित कीजिए -</p> <p>a) लोथल- एक हड़प्पा स्थल अथवा बौद्ध गया- एक प्रमुख बौद्ध स्थल</p> <p>b) पानीपत- बाबर, अकबर और औरंगजेब के अधीन एक क्षेत्र अथवा मेरठ- 1857 के विद्रोह का एक मुख्य केंद्र</p> <p>c) चम्पारन</p> <p>(30.2) भारत के दिए गए इसी राजनैतिक मानचित्र पर राष्ट्रीय आंदोलन से संबन्धित दो स्थल A,B अंकित किए गए हैं, उन्हें पहचानिए और उनके नाम लिखिए</p> <p>नोट: निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधितों के लिए प्रश्न संख्या 30.1 एवं 30.2 के स्थान पर है ।</p> <p>(30.1) कोई तीन परिपक्व हड़प्पा स्थलों का नाम लिखिए अथवा कोई तीन बौद्ध स्थलों का नाम लिखिए</p> <p>(30.2) 1857 के विद्रोह के किन्हीं दो केंद्रों के नाम लिखिए।</p>	1+1+1
		1+1

